



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327]
No. 327]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 1984/आषाढ़ 22, 1906
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1984/ASADHA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1984

का०आ० 504(अ) —विकास परिषद (कार्यविधिका) नियम, 1952
के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग(विकास तथा विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार गतद्वारा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग
विभाग) ने आदेश मख्या का०आ० 745(ड) दिनांक 14 अक्टूबर,
1981 समय-समय पर यथाभंगोचित द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों
जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों
को तुरन्त प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिये मशीनी औजारों के
निर्माण अथवा उत्पादनरत धनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद का
सदस्य नियुक्त करती है —

मशीनों औजारों की विकास परिषद्

1 सचिव,
भारी उद्योग विभाग

अध्यक्ष

- | | |
|--|-------|
| 2 महानिदेशक,
तकनीकी विकास या महानिदेशालय
नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3 विकास प्रायुक्त,
लघु उद्योग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली। | सदस्य |
| 4 श्री ए०० कानूनगो,
संयुक्त सचिव (मशीनी औजार)
भारी उद्योग विभाग
नई दिल्ली। | सदस्य |
| 5 डा० आर० जी० कुम्बले
निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग,
टेक्नालॉजी भवन, न्यू महरोली रोड,
नई दिल्ली। | सदस्य |
| 6 श्री बी०डी० जेथरा,
संयुक्त सहायकार (इंजीनियरी),
योजना आयोग, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 7 महा-निदेशक, प्रायुध कारखाना,
6, एम्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता। | सदस्य |

8. प्रतिनिधि, रेलवे बोर्ड, सदस्य
9. प्रतिनिधि, भारत का औद्योगिक विकास बैंक, नारीमन भवन, 227, विनय के. शाह मार्ग, नारीमन प्लॉट, बम्बई-400021. सदस्य
10. प्रतिनिधि, उत्पादन तथा मीमा श्रृंखला का केन्द्रीय बोर्ड, विज्ञान मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली। सदस्य
11. निदेशक, केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान, तुमकुर रोड, बंगलूर-560022. सदस्य
12. अध्यक्ष, भारतीय मशीनी औजार निर्माता संघ, 82, जोशी मेकर चैम्बर, 225, नारीमन प्लॉट, बम्बई-400021. सदस्य
13. अध्यक्ष, भारतीय माटरग्राफी निर्माता संघ, आर्मी एण्ड नेवी डिपार्ट्मन्ट, 148, एम. जी. राउ, बम्बई-400023. सदस्य
14. अध्यक्ष, भारतीय इजीनियरी उद्योग संघ, 172, जोग बाग, नई दिल्ली-110003. सदस्य
15. अध्यक्ष, लघु औजार निर्माता संघ, पंचवीं मंजिल, इण्डस्ट्री हाउस, 159, चर्च गेट, रिक्लेमेशन, बम्बई-400020. सदस्य
16. श्री टी.वी. मनसुखानी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एच.एम.टी. लिमिटेड, 36, कनिष्क रोड, बंगलूर-560052. सदस्य
17. श्री टी.वी. एम. शास्त्री, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रागा टूल्स लिमिटेड, 6-6/32, काबाडीगुडा रोड, मिकन्दराबाद-500 003. सदस्य
18. महा प्रबन्धक, हैवी मशीन टूल्स प्लांट, हैवी इजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची। सदस्य
19. श्री विक्रम किलोस्कर, सचिव किलोस्कर लिमिटेड, [रा. यंत्रपुर] हरिद्वार-577602. सदस्य
20. श्री विनोद एल. बोधी, अध्यक्ष, बालबन्धन नगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कन्स्ट्रक्शन हाउस, बालबन्धन मार्ग, बस्ताई एस्टेट, बम्बई-400038. सदस्य

21. श्री डी. एस. मुल्ता, कन्सल्टिंग इंजीनियर, इजीनियरिंग सेक्टर, 9, मैथ्यू रोड, बम्बई-400004. सदस्य
22. श्री जे. एन. मेहरोत्रा, कन्सल्टिंग इंजीनियर, बम्बई। सदस्य
23. श्री बी. गुरुदास, औद्योगिक सलाहकार, मशीनी औजार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली. सदस्य-सचिव

[फा.सं. 19(8)/83-एम.टी.]
शोभन कानूनगो, मयुराजी सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 13th July, 1984

S.O. 504 (E).—In exercise of powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with immediate effect, the following persons to be members of the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture or production of Machine Tools, in place of the members appointed under the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) Order No. S.O. 745(F) dated the 14th October, 1981, as amended from time to time, whose tenure of office has expired.

DEVELOPMENT COUNCIL FOR MACHINE TOOLS :

1. Secretary, Chairman
Department of Heavy Industry,
2. Director General, Member
Directorate General of Technical Development,
New Delhi.
3. Development Commissioner, Member
Small Scale Industries,
Nirman Bhavan,
New Delhi.
4. Shri S. Kanungo, Member
Joint Secretary (Machine Tools),
Department of Heavy Industry,
New Delhi.
5. Dr. R.G. Kumble, Member
Director,
Department of Science & Technology,
Technology Bhavan,
New Mehrauli Road,
New Delhi.
6. Shri B.D. Jethra, Member
Joint Adviser (Engg.),
Planning Commission,
New Delhi.
7. Director General of Ordnance Factories, Member
6, Esplanade East,
Calcutta.
8. Representative of Railway Board.

9. Representative of Industrial Development Bank of India, Nariman Bhavan, 227, Vinay K. Shah Marg, Nariman Point, Bombay-400021.	Member	16. Shri T.V. Mansukhani, Chairman & Managing Director, HMT Ltd., 36, Cunningham Road, Bangalore-560052.	Member
10. Representative of Central Board of Excise & Customs, Ministry of Finance, (Department of Revenue), New Delhi	Member	17. Shri T.V.S. Sastri, Chairman & Managing Director, Praga Tools Ltd., 6-6-8/32, Kavadiiguda Road, Secunderabad-500003.	Member
11. Director, Central Machine Tool Institute, Tumkur Road, Bangalore-560022.	Member	18. General Manager, Heavy Machine Tool Plant, Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi.	Member
12. President, Indian Machine Tool Manufacturers Association, 82, Jolly Maker Chambers, 225, Nariman Point, Bombay-400021.	Member	19. Shri Vikram Kulkarni, Mysore Kirloskar Ltd., P.O. Yantrapur, Harihar-577602.	Member
13. President, Association of Indian Automobile Manufacturers, Army and Navy Building, 148, M.G. Road, Bombay-400023.	Member	20. Shri Vinod L. Doshi, Chairman, Walchandnagar Industries Ltd., Construction House, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Bombay-400038.	Member
14. President, Association of Indian Engineering Industry, 172, Jor Bagh, New Delhi-110003.	Member	21. Shri D.S. Mulla, Consulting Engineer, Engineering Centre, 9, Mathew Road, Bombay-400004.	Member
15. President, Association of Small Tool Manufacturers, 5th Floor, Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-400020.	Member	22. Shri J.N. Mehrotra, Consulting Engineer, Bombay.	Member
		23. Shri B. Garudachar, Industrial Adviser (Machine Tools), Directorate General of Technical Development, New Delhi.	Member-Secretary

[F. No. 19-8/83-MT]

S. KANUNGO, Jr. Secy.

